

Class-7 Sub-Sanskrit Reader

Ch-8

दिए गए कार्य को बुक में पूर्ण करें।

**लिखित:**

- (क) (ii) भ्रात्वा (ख) (vi) तरितुम्  
(ग) (i) उपगम्य (घ) सम्भूय
- धातु क्त्वा तुमुन्  
लिख् + लिखित्वा - लेखितुम्  
पठ् + पठित्वा - पठितुम्  
तृ + तीर्त्वा - तरितुम्  
पा + पीत्वा - पातुम्  
कृ + कृत्वा - कर्तुम्

25

- उपसर्ग + धातु + प्रत्यय = शब्द  
सम् + रक्ष् + ल्यप् = संरक्ष्य  
निर् + गम् + ल्यप् = निर्गम्य  
सम् + दृश् + ल्यप् = संदृश्य  
प्र + नम् + ल्यप् = प्रणम्य  
आ + दा + ल्यप् = आदाय  
प्र + आप् + ल्यप् = प्राप्य
- (क) जीवितुम् (ख) निवृत्य (ग) कृत्वा  
(घ) व्यायामः (ङ) बहवः
- निर्गम्य - निकलकर उपगम्य - पास जाकर  
प्राप्य - प्राप्त करके प्रणम्य - प्रणाम करके  
संपच्य - पकाकर संरक्ष्य - रक्षा करके
- (क) मानवः (ख) शरीररक्षा (ग) बहवः  
(घ) रक्तस्य (ङ) व्यायामः
- (क) वयम् भोजनं कृत्वा विद्यालयं गमिष्यामः।  
(ख) अहं क्रीडित्वा पठामि।  
(ग) सः पठितुं विद्यालयं गच्छति।  
(घ) यूयं शिक्षकं नत्वा पठत।  
(ङ) जीवने व्यायामः परमावश्यकम् अस्ति।  
(च) व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति।
- मूल्यपरक-स्वस्थ रहता है।

**रचनात्मक: अभ्यास:**

क्त्वा	तुमुन्	ल्यप्
क्रीडित्वा	तरितुम्	विहस्य
पीत्वा	नेतुम्	विज्ञाय
	जेतुम्	विचित्य
		सम्भूय

26